

## एनडीआईएस (NDIS) के अंतर्गत सेवाएँ प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा?

राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (NDIS) पश्चिमी (वेस्टर्न) ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (WA में NDIS) विकलांग लोगों के लिए उन व्यक्तिगत सहायताओं को प्राप्त करने का एक नया तरीका है जो उनकी वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप हों। इस योजना (NDIS) को WA में स्थानीय स्तर पर डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिटीज-डिसेबिलिटी सर्विसेज (पहले इसका नाम डिसेबिलिटी सर्विसेज कमीशन था) द्वारा संचालित किया जाता है।

नीचे दी गई प्रक्रिया में बताया गया है कि व्यक्ति को एनडीआईएस से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए किन-किन बातों को पूरा करना होगा।

### 1. पात्रता की जाँच

- NDIS के लिए योग्यता की जाँच करने व उसकी सेवाएँ प्राप्त करने का अनुरोध करने के लिए WA में NDIS से संपर्क करें।
- 1800 996 214 पर फ़ोन करें या अपने निकटतम स्थानीय संयोजन (कोर्डिनेशन) कार्यालय में जाएँ।
- योग्यता के लिए फ़ॉर्म और दस्तावेज़ों को जमा करने के 21 कैलेंडर दिनों के भीतर आपको जवाब मिलेगा।

### 2. योजना तैयार करना

- पात्रता की पुष्टि हो जाने पर एक स्थानीय संयोजक आपसे मिलेगा और आपकी वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद देने के लिए एक NDIS योजना तैयार करने का काम आरंभ करेगा।
- योजना तैयार करने की प्रक्रिया में 90 दिन तक लग सकते हैं।

### 3. सेवाएँ प्रदान करने वालों का पता लगाना

- योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान, आपका स्थानीय संयोजक (कोऑर्डिनेटर) सहायताओं व सेवाओं के लिए उपलब्ध स्थानीय सामुदायिक, सरकारी और राष्ट्रीय स्तर के मुख्य सेवा प्रदाताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा।
- आपका स्थानीय संयोजक आपको उन सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने के लिए कहेगा जो आपकी योजना में शामिल लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

NDIS  
में शामिल  
होना

### 4. योजना को अंतिम रूप देना

- आर्थिक सहायता प्राप्त सहायताओं और सेवाओं को आपकी NDIS योजना में शामिल करने से पहले उनके लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- योजना मंजूर होने के बाद सेवाएँ आम तौर पर लगभग 4 से 6 सप्ताह के बाद शुरू होती हैं।
- यदि NDIS योजना में कोई और निर्देश न हो तो आम तौर पर वह 1 वर्ष के लिए लागू होती है।

डिपार्टमेंट ऑफ़ कम्युनिटीज (डिसेबिलिटी सर्विसेज) द्वारा समर्थित